



Maps | APIs | Navigation | Tracking | GIS

Date: October 31, 2022

The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
BSE SCRIP Code: 543425

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai 400 051
NSE Symbol: MAPMYINDIA

Subject: Copy of Consolidated & Standalone Un-audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022, published in newspaper.


Dear Sir / Madam,

Please find attached copies of Consolidated and Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi Edition).

We request you to kindly take the above information on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For C.E. Info Systems Limited


Saurabh Surendra Somani
Company Secretary & Compliance Officer



C.E. INFO SYSTEMS LIMITED

(Previously Known as C.E. Info Systems Pvt Ltd)

237, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi 110020, Digital Address: eloc.me/mmi000, Email: contact@mapmyindia.com,
Website: www.mapmyindia.com, Phone: +91-11-4600 9900, CIN : L74899DL1995PLC065551 A CMMI & ISO 9001:2008 Certified Company

Oil giants' massive profits revive calls for windfall taxes

SABRINA VALLE & RON BOUSSO
October 28

GLOBAL ENERGY GIANTS including Exxon Mobil Corp and Chevron Corp posted another round of huge quarterly profits, benefiting from surging natural gas and fuel prices that have boosted inflation around the world and led to fresh calls to further tax the sector.

Four of the five largest global oil companies have now reported results, combining for nearly \$50 billion in net income, lifted by tight global markets and disruption following Moscow's invasion of Ukraine.

The sheer size of the profits has revived calls from politicians and consumer groups to impose more taxes on the companies to raise funds to offset the hit to households, businesses and the wider economy from higher energy costs. They have also criticized big oil companies for not doing enough to raise production to offset rising fuel and heating costs.

Chevron Chief Financial Officer Pierre Breber warned in an interview with Reuters that "taxing production will just reduce it."

The company reported its second-highest profit of \$11.2 billion. However, the company's global production is down so far this year from a year ago, and other U.S. oil companies signaled that output in the top-producing U.S. shale region is waning already.

"If you raise the costs on energy producers, it will decrease investment so that goes against the intent of increasing suppliers and making energy more affordable."

U.S. President Joe Biden, who earlier this year said Exxon was making "more money than God", told oil companies this month that they were not doing enough to bring down energy costs.

Hours after Shell reported a

quarterly profit of \$9.45 billion and raised its dividend by 15% on Thursday, Biden said the company was misusing its profits.

On Friday, he noted on Twitter in response to a comment from Exxon's CEO that "giving profits to shareholders is not the same as bringing prices down for American families."

In the UK, the president of the COP26 climate summit Alok Sharma said on Friday that Prime Minister Rishi Sunak's government should explore extending a windfall tax on oil and gas firms.

"These are excessive profits, and they have to be treated in the appropriate way when it comes to taxation," Sharma said.

Shell CEO Ben Van Beurden has said the energy industry "should be prepared and accept" that it will face higher taxes to help struggling parts of society. Shell earned more than \$9 billion in the third quarter, putting it on track to surpass its record annual profit of \$31 billion set in 2008.

WINDFALL

Exxon Mobil, the largest U.S. major, reported nearly \$20 billion in net income in the quarter ending in September, exceeding expectations and surpassing its previous record set just three months earlier.

Exxon led the five oil majors in overall revenue, nearly doubling its peers Shell and TotalEnergies in the quarter. Exxon's shares lagged those companies' stocks for several years, but have rebounded in 2022 even as it has not made the same commitment as its European competitors to ramp up spending in renewables. BP Plc, the fifth major, reports results next week.

"Where others pulled back in the face of uncertainty and a historic slowdown, retreating and retrenching, this company moved forward, continuing to invest," Exxon CEO Darren Woods said. —REUTERS

Loans to group firms caused ₹1,755cr impact to RCap in FY20: Auditor report

LOANS GIVEN BY Reliance Capital to various group entities during 2019-20 caused a financial impact of over ₹1,755 crore, according to a transaction auditor report submitted to the administrator of the insolvency-bound company.

The administrator of Reliance Capital appointed under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, took assistance from transaction auditor BDO India LLP to conduct an investigation of the affairs of the company related to the company's transactions.

Based on the observations of the transaction auditor, the administrator on October 22, 2022, filed applications in respect of disbursements to a total of seven companies before the Mumbai bench of the National Company Law Tribunal (NCLT), Reliance Capital said in various regulatory filings on Friday.

All these transactions were in the nature of loans given by Reliance Capital to the entities involved.

In separate filings to stock exchanges, the administrator on the basis of the report from BDO said there was an estimated impact of ₹1,142.08 crore by way of a loan to Reliance Entertainment Network Pvt Ltd (RENPL); ₹203.01 crore to Reliance Unicorn Enterprises (RUEPL); ₹162.91 crore to Reliance Big Entertainment (RBEPL); ₹131.52 crore to Reliance Broadcast Network (RBNL); ₹59.12 crore to Reliance Business Broadcast News Holding (RBBNHL).

Also, there was an impact of ₹39.30 crore by way of loans to Reliance Alpha Services (RASPL) and ₹17.24 crore to Zapak Digital Entertainment (Zapak).

The company said the administrator filed applications against these companies on October 22, 2022, and they are subject to adjudication by the NCLT. —PTI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

Registered Office: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

CIN: L34103DL1981PLC011375; Website: www.marutisuzuki.com; E-mail: investor@maruti.co.in; Phone: + 91-11-46781000; Fax: +91-11-46150275/76

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Half year ended		Year ended
		September 30, 2022	June 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	299,308	264,998	205,389	564,306	383,096	882,956
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax; Exceptional and / or Extraordinary Items)	26,283	13,218	5,990	39,501	11,625	45,823
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax; after Exceptional and / or Extraordinary Items)	26,283	13,218	5,990	39,501	11,625	45,823
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	20,615	10,128	4,753	30,743	9,161	37,663
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	23,450	12,393	5,035	35,843	10,793	40,786
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet						539,350
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	68.24	33.53	15.73	101.77	30.33	124.68
	(b) Diluted	68.24	33.53	15.73	101.77	30.33	124.68

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Half year ended		Year ended
		September 30, 2022	June 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2022	September 30, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	299,425	265,117	205,509	564,542	383,273	883,298
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax; Exceptional and / or Extraordinary Items)	26,786	13,472	6,097	40,258	12,062	46,972
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax; after Exceptional and / or Extraordinary Items)	26,786	13,472	6,097	40,258	12,062	46,972
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	21,125	10,362	4,869	31,487	9,619	38,795
5	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	23,965	12,631	5,148	36,596	11,259	41,924
6	Equity Share Capital	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
7	Reserve as shown in the Audited Balance Sheet						551,825
8	Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)						
	(a) Basic	69.93	34.30	16.12	104.23	31.84	128.43
	(b) Diluted	69.93	34.30	16.12	104.23	31.84	128.43

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2022 are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website at www.marutisuzuki.com.

Place: New Delhi

Date - October 28, 2022

For and on behalf of Board of Directors

(Hisashi Takeuchi)

Managing Director & CEO

FINKURVE FINANCIAL SERVICES LIMITED

Corporate Office : Trade World, D-Wing, 2nd Floor, 202, Kamala Mill Compound Lower Panel (W), Mumbai, Maharashtra - 400013

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by **Finkurve Financial Services Limited**, through his facilitated partner **Augmont Gold Tech Pvt. Ltd.**, on **02.11.2022 at 10:00 am, Augmont Gold For ALL Shop No. 1, Mahajan Apartment, opp. Panchayat samiti, main Bajarpeth, Murbad (M.S.) Pin - 421401**. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various borrowers mentioned below with branch name.

MURBAD : MURB-59092, MURB-49092.

For More Details, Contact: CHIRAG DOIFODE Mob. 977428496

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned & / postpone / cancel the auction without any prior notice)

THE INDIAN LINK CHAIN MFRS. LTD.

Regd. Office : 59, Sonawala Building, 2nd Floor, Mumbai Samachar Marg, Mumbai - 400 023.
Tel. No. 022-22661013; Email : inlinch@hotmail.com, Website : www.inlinch.com, CIN No. : L228920MH1956PLC009882

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2022

Sr. No.	Particulars	Rs. in Lakhs except EPS				
		Quarter Ended		Period Ended		Year Ended
		Unaudited 30-09-2022	Unaudited 30-06-2022	Unaudited 30-09-2021	Unaudited 30-09-2022	Audited 31-03-2022
1	Total Income from operations (net)	-	-	-	-	-
2	Net Profit (+)/Loss(-) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items tax)	(14.57)	(13.37)	(11.33)	(27.94)	(46.17)
3	Net Profit (+)/Loss(-) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.57)	(13.37)	(11.33)	(27.94)	(46.17)
4	Net Profit (+)/Loss(-) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(14.57)	(13.37)	(11.33)	(27.94)	(46.17)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(14.57)	(13.37)	(11.33)	(27.94)	(46.17)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs 100/- per share)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7	Other Equity					308.83
8	Earning per share a. Basic in Rs. b. Diluted in Rs.	(29.14) (29.14)	(26.74) (26.74)	(22.66) (22.66)	(55.88) (55.88)	(92.34) (92.34)

Notes :

- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 28-10-22. The Statutory auditors of the company has carried out a limited review of aforesaid results.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.inlinch.com).
- The figures of quarter ended 30th Sep 2022 are the balancing figures between unaudited figures for the period ended 30th Sep 2022 and published unaudited figures for first quarter ended 30th June 22.
- The Company is engaged in trading of Chains and Chemicals. In view of the Management the risks and returns in trading of these products are not different. Hence the disclosure of "Segment Reporting" not required accordingly.
- Corresponding figures of the previous quarter/year have been regrouped, recasted and reclassified to make them comparable wherever necessary.

For THE INDIAN LINK CHAIN MFRS. LTD.

Place : Mumbai
Date : 28.10.2022

Sd/-
SUDHIR NEVATIA
MANAGING DIRECTOR

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Registered office : 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, Maharashtra
Branch at : **Kotak Mahindra Bank Ltd.**, Agri Business Group, 4th Floor, Zone-III, Nyati Unifree, Pune-Ahmednagar Road, Yerwada, Pune-411 006, Maharashtra.

PUBLICATION OF NOTICE U/S. 13 (2) OF THE SARFAESI ACT

NOTICE is hereby given that the under mentioned borrower(s) / guarantor(s) / mortgagor(s) who have defaulted in the repayment of principal and interest of the loan facility obtained by them from the Bank and whose loan accounts have been classified as **Non Performing Assets (NPA)**. The notices were issued to them under Section 13 (2) of the Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) on their last known addresses, but they have been returned un-served and as such they are hereby informed by way of this public notice.

Name and address of the Borrower	Name and address of the Guarantor(s) & Mortgagor(s)	Details of Properties / Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice
M/s. Shree Sai Stone Crusher (Borrower) Through its Proprietor Mr. Panvelkar Address :- Flat No. 6, Plot No. 45, Ram Smrutu Appt., Suryodaya Soc., Station Road, Ambernath (East), Thane-421 501, Maharashtra.	1. M/s. Sai Enterprises. 2. Mrs. Pratim Panvelkar Both 1 & 2 above residing at :- Flat No. 6, Plot No. 45, Ram Smrutu Appt. Suryodaya Soc. Station Road, Ambernath (E), Thane-421 501, Maharashtra	1. Duplex Flat No. 403, 4 th Floor, Building No. R-1, Panvelkar Regency, S. No. 5 H. No. 12 (Part), City S. No. 31/24, Village Kohoj Khuntavali, Next to Father Angel School, Kohoj Khuntavali, Ambernath-West, Dist. Thane-421 505, owned by M/s. Sai Enterprise. * Bounded as under :- *East : Butter Cup Bldg.; *West : Proposed 80 ft. wide Road; *North : Proposed Panvelkar Lotus Complex; *South : Municipal Land.	01.09.2022
		2. Duplex Flat No. 404, 4 th Floor, Building No. R-1, Panvelkar Regency, S. No. 5 H. No. 12 (Part), City S. No. 31/24, Village Kohoj Khuntavali, Next to Father Angel School, Kohoj Khuntavali, Ambernath-West, Dist. Thane-421 505, owned by M/s. Sai Enterprise. * Bounded as under :- *East : Butter Cup Bldg.; *West : Proposed 80 ft. wide Road; *North : Proposed Panvelkar Lotus Complex; *South : Municipal Land.	31.12.2022
		3. Mr. Mashallah Azazuddin Chauhan R/at. :- Flat No. 301, Chauhan Apartment, S. V. P. Road, Near Old Police Station, Wandrapada, Ambernath (W), Thane-421 505, Maharashtra.	₹ 20,25,060.89 (Rs. Twenty Lakhs Twenty Five Thousand Sixty & Eighty Nine Paise only).
		4. Mr. Dilip Krishna Mahale R/at. :- Room No. 01, Nav Jehvan C. H. S., A Wing, Behind Fatima School, Subhashwadi, Ambernath (W) Thane-421 505, Maharashtra.	

The above borrowers and / or their guarantor(s) / mortgagor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of above mentioned O/s. amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of said 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act.

Place : Mumbai
Date : 29.10.2022

Sd/-
Authorized Officer
For Kotak Mahindra Bank Limited

MapmyIndia MAPPLS

C. E. INFO SYSTEMS LIMITED

(formerly known as C.E. Info Systems Pvt. Ltd.)

Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot. No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi 110 020, India; CIN: L74899DL1995PLC065551
Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900



Q2 & H1 Financial Year 2023



Extract of unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

Sr. No.	Particulars	(Rs. in lakhs)		
		Quarter ended 30.09.2022	Half year ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	7,631	14,132	5,668
2	Profit before tax	3,550	6,922	3,711
3	Profit after tax	2,537	4,956	2,539
4	Total Comprehensive Income for the period	2,528	5,001	2,595
5	Profit (PAT) for the year attributable to:			
	Owners of the Company	2,541	4,959	2,539
	Non-controlling interests	(4)	(3)	-
	Total	2,537	4,956	2,539
6	Total comprehensive income for the year attributable to:			
	Owners of the Company	2,532	5,004	2,595
	Non-controlling interests	(4)	(3)	-
	Total	2,528	5,001	2,595
7	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	1,073	1,073	799
8	Other equity (excludes non-controlling interest)	48,766	48,766	39,817
9	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)			
	(a) Basic	4.73	9.24	4.77
	(b) Diluted	4.64	9.06	4.67

Extract of unaudited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022

Sr. No.	Particulars	(Rs. in lakhs)		
		Quarter ended 30.09.2022	Half year ended 30.09.2022	Quarter ended 30.09.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations (net)	6,710	12,895	5,642
2	Profit before tax	3,572	7,037	3,653
3	Profit after tax	2,615	5,128	2,507
4	Total Comprehensive Income for the period	2,661	5,173	2,477

Note :

- The previous periods numbers have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform the current period presentation.
- The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the "Company") are available on Company's website www.mapmyindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed.
- The Company has only one business segment, i.e. Map data and Map data related services (GPS navigation, location-based services and IoT). This business mainly consists of products like digital map data, GPS navigation and location-based services, licensing, royalty, annuity, subscription and customizing its products to customers.
- The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022 (the "statement") were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on October 27, 2022. The Statutory Auditors of the Company has carried out a limited review of the above results for the quarter and half year ended September 30, 2022.
- The Company has issued 412242 equity shares on 5th August, 2022 under the Employee Stock Option Plan, 2008 of C.E. Info Systems Limited
- The Unaudited consolidated and Standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

Place: New Delhi
Date: 27 October 2022

For and on behalf of the Board of Directors of
C. E. Info Systems Limited
Rohan Verma
CEO and Whole time Director
DIN: 01797489



EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.
Registered Office : 2, Rainey Park, Kolkata-700019
CIN : L31402WB1934PLC007993, Tel : 91-33-24559213, 033-24864961, Fax : 91-33-24864673, Email : investorrelation@eveready.co.in Website : www.evereadyindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE/CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022
(₹ in Crores, except per share data)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		3 months ended	6 months ended	Corresponding 3 months ended in	3 months ended	Previous 6 months ended	Corresponding 3 months ended in
		(30/09/2022)	(30/09/2022)	(30/09/2021)	(30/09/2022)	(30/09/2022)	(30/09/2021)
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	375.75	711.13	357.49	375.75	711.13	357.49
2	Net Profit for the period before tax	20.90	48.20	38.17	20.92	46.22	38.22
3	Net Profit for the period after tax	14.71	36.56	30.97	14.73	36.58	31.04
4	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	15.98	37.38	31.14	16.13	37.74	31.19
5	Paid up Equity Share Capital (Face Value : ₹ 5/- per share)	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34	36.34
6	Earnings Per Share (Basic & Diluted) of ₹ 5/- each (not annualised)						
	(a) Basic	2.02	5.03	4.26	2.03	5.03	4.27
	(b) Diluted	2.02	5.03	4.26	2.03	5.03	4.27

NOTE:
The above is an extract of the detailed format of the Statements of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statements of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively and on the Company's website at www.evereadyindia.com.

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.
Suvaraj Saha
Managing Director

Kolkata
October 28, 2022

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Regd. Office & Investor Relations Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Nehru Road, New Delhi-110076
CIN: L32191DL1999OJ029919 | Tel. No.: 91-11-23660079
E-mail: investorrelations@concorindia.com, Website: http://www.concorindia.co.in

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 10th November, 2022 to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and period ended on 30th September, 2022 and declaration of Interim Dividend for 2022-23, if any, to the shareholders.

Further, in terms of SEBI (PIT) Regulations, 2015, as amended, the Trading Window for dealing in Equity Shares of the Company is closed for all designated persons & their immediate relatives for the period from 01st October, 2022 till the expiry of 48 hours after declaration of the Financial Results of the Company for the quarter and period ended on 30th September, 2022.

This information is also available on the website of the Company and the websites of the Stock Exchange where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For and on behalf of
Container Corporation of India Limited
Executive Director (Finance) & CS

Place: New Delhi
Date: 19.10.2022

PUNJAB NATIONAL BANK
SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION
PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075 | Email Id: board@pnbs.co.in, Tel # 011-26044857

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate of the Bank mentioned below has been reported lost/stolen and the registered holder(s) thereof/claimant(s) thereto have requested for issue of duplicate share certificate:

Name of Shareholder (s)	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No. of Shares	No. of Shares
Umesh Malik Jai-Vanita Malik	1105148	16736	673630485-673630506	115

In case any person has any claim in respect of the said share(s)/objection(s) for the issuance of duplicate certificate in favour of the above stated shareholder(s)/claimant(s), he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date thereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate, duplicate share certificate/letter of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate.

For Punjab National Bank
Date: 28.10.2022
Place: New Delhi

For Punjab National Bank
83th Principal
Company Secretary

पंजाब नेशनल बैंक
punjabnationalbank
The Bank you can bank with!

MapmyIndia MAPPLS
C. E. INFO SYSTEMS LIMITED
(formerly known as C.E. Info Systems Pvt. Ltd.)

Registered and Corporate Office: First, Second, & Third Floor, Plot No. 237, Okhla Industrial Estate, Phase - III, New Delhi 110 020, India; CIN: L74899DL1995PLC065551
Website: www.mapmyindia.com; E-mail: cs@mapmyindia.com; Telephone: +91 11 4600 9900

Q2 & H1 Financial Year 2023

Q2 FY23
revenue up 35%
YoY to all-time high
of Rs 76 Cr

H1 FY23
Revenue
up 41% YoY
to Rs 141 Cr

H1 FY23
EBITDA up
32% YoY

H1 FY23
EBITDA
margin
at 43%

Extract of unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022
(Rs. In lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	7,631	14,132	5,668
2	Profit before tax	3,550	6,922	3,711
3	Profit after tax	2,537	4,956	2,539
4	Total Comprehensive Income for the period	2,528	5,001	2,595
5	Profit (PAT) for the year attributable to:			
	Owners of the Company	2,541	4,959	2,539
	Non-controlling interests	(4)	(3)	-
	Total	2,537	4,956	2,539
6	Total comprehensive income for the year attributable to:			
	Owners of the Company	2,532	5,004	2,595
	Non-controlling interests	(4)	(3)	-
	Total	2,528	5,001	2,595
7	Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	1,073	1,073	799
8	Other equity (excludes non-controlling interest)	48,766	48,766	39,817
9	Basic and Diluted EPS (not annualised) (after Tax, exceptional and Extraordinary charges)			
	(a) Basic	4.73	9.24	4.77
	(b) Diluted	4.64	9.06	4.67

Extract of unaudited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022
(Rs. In lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Half year ended	Quarter ended
		30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total income from operations (net)	6,710	12,895	5,642
2	Profit before tax	3,572	7,037	3,653
3	Profit after tax	2,615	5,128	2,507
4	Total Comprehensive Income for the period	2,661	5,173	2,477

Note:

- The previous periods numbers have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform the current period presentation.
- The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of C.E. Info Systems Limited (the "Company") are available on Company's website www.mapmyindia.com and also on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com), where the shares of the Company are listed.
- The Company has only one business segment, i.e. Map data and Map data related services (GPS navigation, location-based services and IoT). This business mainly consists of products like digital map data, GPS navigation and location-based services, licensing, royalty, annuity, subscription and customizing its products to customers.
- The above Unaudited Consolidated and Standalone Financials Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2022 (the "statement") were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on October 27, 2022. The Statutory Auditors of the Company has carried out a limited review of the above results for the quarter and half year ended September 30, 2022.
- The Company has issued 412242 equity shares on 5th August, 2022 under the Employee Stock Option Plan, 2008 of C.E. Info Systems Limited
- The Unaudited consolidated and Standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors of
C. E. Info Systems Limited
Rohan Verma
CEO and Whole time Director
DIN: 01797489

Place: New Delhi
Date: 27 October 2022

EXPRESS explained.Live

China after the Party Congress

Vijay Gokhale
Former Foreign Secretary and
India's Former Ambassador to China

In conversation with

Shubhajit Roy
Associate Editor
The Indian Express

The 20th National Congress of the Communist Party of China has confirmed Xi Jinping as General Secretary for a third five-year term. No leader of China since Mao Zedong has ruled for more than two terms.

What does this mean for China — it's politics, economy, military and its people? What is its impact on global politics at a time of geopolitical flux and disruption? What does that mean for India, which shares a long and contested border with China?

Listen to Vijay Gokhale, former Foreign Secretary and India's former Ambassador to China, at the latest edition of Explained.Live at The Indian Express.

For a major part of his 39-year career, Gokhale focussed on China — either through diplomatic assignments in the country or at the Ministry of External Affairs in New Delhi. After his retirement, Gokhale has authored three books, 'The Long Game: How the Chinese Negotiate with India', 'Tiananmen Square: The Making of a Protest' and, most recently, 'After Tiananmen: the Rise of China'

31 October 2022

06:00 PM

To register, SCAN

To register, SMS - IEEXP <space> "IE" <space> "Your name and email ID" to 56161
Confirmation SMS will be your registration

Associate Partner **YOJNA IAS** **The Indian EXPRESS** JOURNALISM OF COURAGE

IndianExpress.com/apps twitter.com/IndianExpress facebook.com/IndianExpress

